PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Regd. Off: L-7, Menz Floor, Greenpark Extension, New Delhi -110016 Ph No. 011-46067802 CIN: L65910DL1988PLC033799 GSTIN: 07AAACD0419K1ZX Email ID: purshottaminvestofin@gmail.com Website: www.purshottaminvestofin.in

BSE Limited Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, **Dalal Street, Fort** Mumbai - 400 001.

Dear Sir,

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations')

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Un-audited Financial results for quarter and half year ended 30.09.2020 published in the following newspapers on 12.11.2020:

- 1. Financial Express in English Language;
- 2. Jansatta in Hindi Language.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For Purshottam Investofin Limited

Ankit Gupta Company Secretary **Company Secretary**

Dated: 12.11.2020

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड सीआईएनः L55101DL2007PLC157518

पंजीकृत कार्यालयः ६ठी मंजिल, आरिया टावर्स, जे डब्ल्यू मैरियट, नई दिल्ली एरोसिटी, एसेट एरिया 4, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, आईजीआई एअरपोर्ट के नजदीक, नई दिल्ली-110037, टेलीफोन: +91-011-41597315 ई—मेलः vivek.jain@asianhotelswest.com

वेबसाइटः www.asianhotelswest.com

सूचना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की शनिवार, 14 नवम्बर

2020 को आयोजित होने वाली बैठक शुक्रवार, 13 नवम्बर 2020 के लिए, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों विचार एवं अनुमोदन हेतु पुनर्योजित कर दी गयी है।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.asianhotelswest.com एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

VANI COMMERCIALS LIMITED

एशियन होटल्स (वेस्ट) लिमिटेड के लिए हस्ता / -

Amount in Lakhs

स्थान : नई दिल्ली विवेक जैन दिनांक : 11 नवम्बर 2020 कम्पनी सचिव

Regd. Off.: 'AASTHA', LP -11C, Pitampura, New Delhi - 110034 CIN: L74899DL1988PLC106425, Ph: 011-27324080 Website: www.vanicommercials.com, Email ID: info@vanicommercials.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER , 2020 Amount in L

| S N | | 3 months ended 30.09.2020 | 3 months ended 30.09.2019 | 12 months ended 31.03.2020 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Total Income from Operations | 14.810 | 13.916 | 54.345 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items) | 1.542 | 0.319 | 2.478 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items) | 1.542 | 0.319 | 2.478 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) | 1.542 | 0.319 | 0.348 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 1.542 | 0.319 | 0.348 |
| 6 | Equity Share Capital | 411.980 | 411.980 | 411.980 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 0.000 | 0.000 | 3.819 |
| 8 | Earnings Per Share (of ?10/- each): | | | |
| | 1. Basic (₹) : | 0.040 | 0.010 | 0.010 |
| IL | 2. Diluted (₹): | 0.040 | 0.010 | 0.010 |

a) The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meetin held on 11/11/2020. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.vanicommercials.com) and on the website of BSE Limite (www.bseindia.com)

The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations an Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related Report doe not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended, 30th Septembe 2020 which needs to be explained.

For Vani Commercials Limite

Date: 11/11/2020 Place: New Delhi

Jitender Kumar Junei (Managing Director & CFO) DIN: 06639752

PATBACK BUSINESS LIMITED (Formerly known as Crazypricing Online ServicesLimited)

CIN: L74999DL1984PLC018747 Regd. Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085 | Ph: 011-27860680

Email:crazypricingdel@gmail.com | Website: www.crazypricingonline.com Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter and half year ended September 30, 2020

Quarter Half Year Corresponding

| SI No. | Particulars | Ended | Ended | in the previous |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 30/09/2020 (Unaudited) | 30/09/2020 (Unaudited) | 30/09/2019 |
| 1. | Total income from operations | 0.45 | 0.90 | 8.44 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, | | | |
| | Exceptional and/or Extraordinary items) | (2.44) | (3.99) | (1.42) |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after | | | |
| | Exceptional and/or Extraordinary items) | (2.44) | (3.99) | (1.42) |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after tax | | | |
| L | (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (2.44) | (3.99) | (1.42) |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period | | | |
| | [Comprising Profit / (Loss) for the period (after | (0.44) | (0.00) | |
| | tax) and other Comprehensive Income (after tax)] | (2.44) | (3.99) | (1.42) |
| 6. | Equity Share Capital | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown | | (0.45) | (4.00) |
| | in the Audited Balance Sheet of previous year) | (6.45) | (6.45) | (4.26) |
| 8. | Earnings Per Share (of Rs.10/- each) | | | |
| | (for continuing and discontinued operations) - | (0.00) | (4.64) | (0.57) |
| | 1. Basic : | (0.98) | (1.61) | (0.57) |
| Ļ., | 2. Diluted : | (0.98) | (1.61) | (0.57) |
| No | te: | | | |

The above is an extract of the detailed format of Unaudited, Financial Results filed with the Store The above is an extract of the detailed format of unautoted. Financial results filed with the Stoce Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the Website or the Company i.e (www.crazypricingonline.com) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in). The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 10th Nov, 2020.

3.The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act ,2013 read with Ind -as rules For and on behalf of the Board of Director (As amended) For Patback Business Limited

Date: 10.11.2020 Place: New Delhi

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

SALORA

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड पंजी. कार्या: डी-13/4. ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-II. नई दिल्ली-110020 CIN:1.74899DI 1968PI C004962 वेबसाइट : www.salora.com, ई-मेल : silcare@salora.com, दूरभाष : 011-40552341

असाधारण वार्षिक साधारण सभा ई-वोटिंग तथा पस्तक बंद होने की तिथि की सचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2020

को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020, 14/202 17/2020 तथा भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्यलर न , सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआई आर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी को वीसी के द्वारा ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। अतएव कम्पनी की ईजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रह है जिसमें ईजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

सर्क्युलर्स के अनुपालन में ईजीएम की सचना की इलेक्टॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनवे ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईर www.salora.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है ईमेल दारा ईजीएम सचना का पेषण 10 11 2020 को परा कर लिया गया है। कट-ऑफ तिथि 27.11.2020 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य

एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम सूचना में वर्णित व्यवसायों कं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सुचित किया जाता है किः र्डजीएम की सचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से निष्पादि

किया जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 01.12.2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।

iii. रिमोट ई-वोटिंग बहस्पतिवार, 03.12.2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।

v. रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 27.11.2020 है।

03.12.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दी जायेगी। . यदि कोई व्यक्ति ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा 27.11.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर

अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वा का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 03.12.2020 को 5.00 बजे अप. भा.मा.स. के बाद एनएसडीएल द्वार

रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान क देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जायेगी; ख) ईजीएम के दौरान भी मतदान की सुविध उपलब्ध होगी तथा वीसी सविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावे पर मतदान नहीं किये हों, वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान कर सकते हैं। ग) जिन सदस्यों रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु फिर से मतदा के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों वे रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिं या ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

viii. डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति, भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपर ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम की सचना में दी गई है ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.salora.cor देखकर विवरण प्राप्त करें।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटर पार्टिसिपैन्टस के पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि ईजीएम की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा ईजीएम में भागीदारी के लिय निर्देशों के लिये admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट मै स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि. (स्काईलाइन) के पास अपना ईमेल पता अपडेट कराएं। यदि आपको ईजीएम में शामिल होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित कोई पश्न अथव

समस्या हो तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Question (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर कॉल करें अथव evoting@cdsl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से उनके विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नं 91 22 24994545/1800-222-990 पर सम्पर्क करें। बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर

तिथि: 10.11.2020

स्थानः नई दिल्ली

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड हस्ता./

महक अगरवा कम्पनी सचिव Date: 10.11.2020



MONEYWISE FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.

(CIN: US1909DL1996PTC353582) REGD. OFFICE: 11/6B, 2nd Floor Shanti Chamber, Pusa Road New Delhi-110005 Extract of Unaudited Results for the Period and Quarter Ended September 30, 2020

| | | Quarter Ended | | | Period | Year Ended | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| SR. | PARTICULARS | | | | | | | |
| No. | PARTICULARS | September 30, 2020 (Unaudited) | June 30, 2020 (Unaudited) | September 30, 2019 (Unaudited) | September 30, 2020 (Unaudited) | September 30, 2019 (Unaudited) | March 31, 2020 (Audited) | |
| 1 | Total Income from Operations | 1,859.11 | 1,773.74 | 2,456.71 | 3,632.85 | 4,854.67 | 8,710.60 | |
| 2 | Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items) | 881.43 | 406.98 | 811.10 | 1,288.41 | 1,655.54 | 2,644.39 | |
| 3 | Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items) | 881.43 | 406.98 | 811.10 | 1,288.41 | 1,655.54 | 2,644.39 | |
| 4 | Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items) | 656.84 | 302.16 | 563.39 | 959.00 | 1,122.15 | 1,853.35 | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 658.48 | 309.89 | 561.32 | 968.37 | 1,114.70 | 1,846.91 | |
| 6 | Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10 each) | 4,365.69 | 4,365.69 | 4,365.69 | 4,365.69 | 4,365.69 | 4,365.69 | |
| 7 | Reserves Excluding Revaluation Reserves | | | | | | 28,092.03 | |
| 8 | Net worth | 33,426.10 | 32,767.61 | 31,725.45 | 33,426.10 | 31,725.45 | 32,457.71 | |
| 9 | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10 | Outstanding Redeemable Preference Shares | - | | | - | | | |
| 11 | Debt Equity Ratio | 0.48 | 0.48 | 0.82 | 0.48 | 0.82 | 0.39 | |
| 12 | Earnings per share (EPS) (in ₹) | | | | | | | |
| | (a) Basic EPS | 1.50 | 0.69 | 1.29 | 2.20 | 2.69 | 4.34 | |
| | (b) Diluted EPS | 1.50 | 0.69 | 1.29 | 2.20 | 2.69 | 4.34 | |
| 13 | Capital Redemption Reserve | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Debenture Redemption Reserve | | | | - | | | |

sd/-Ajay Garg (Director)

सत्कार फिनलीज लिमिटेड CIN: L65910DL1996PLC075394

. (INI:LESSTUDL.1990FL.V.1990FL.V.1990 पंजीकृत कार्यालय : 829, लक्ष्मीदीप बिल्डिंग, 8 पलेर विस्ट्रिक्ट स्टेन्ट, नेक्स्ट दू VSS मील, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 11009ट 30.09.2020 को समाप्त तिमाही एनं छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

| | 30.09.2020 को समान तिमाहा एवं अमाहा के लिए एकल अलखावराबित विदेशिय परिणान (राशि लाख में) | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|--|--|
| _ | I विवरण | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | | | | |
| क्र. | विवरण | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 31.03.2020 | | |
| सं. | | को समाप्त | को समाप्त | | | को समाप्त | | |
| | | | पूर्ववर्ती तिमाही | | | पिछला वर्ष | | |
| | | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | | इस तिथि तक | | | |
| | | | | तक आंकड़े | आंकड़ें | | | |
| | | | | | अलेखापरीक्षित | | | |
| 1 | कुल आय | 9.15 | 10.04 | 19.19 | 28.16 | 64.14 | | |
| 2 | अवधि के लिए निवल लाभ/ | | | | | | | |
| | (हानि) (कर, अपवादात्मक और | 1.15 | 0.63 | 1.78 | 1.51 | 0.92 | | |
| | /या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व#) | | | | | | | |
| 3 | कर पूर्व अवधि के लिए निवल | | | | | | | |
| | लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और | 1.15 | 0.63 | 1.78 | 1.51 | 0.92 | | |
| | /या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) | | | | | | | |
| 4 | कर पश्चात अवधि के लिए निवल | | | | | | | |
| | लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और | | | | | | | |
| | /या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) | 0.79 | 0.63 | 1.42 | 1.51 | 0.68 | | |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय | | | | | | | |
| | (अवधि के लिए लाभ / (हानि) | | | | | | | |
| | (कर पश्चात) और अन्य व्यापक | 0.79 | 0.63 | 1.42 | 1.51 | 0.68 | | |
| | आय (कर पश्चात) शामिल) | | | | | | | |
| 6 | इक्विटी शेयर पूंजी | 2204.40 | 2204.40 | 2204.40 | 2204.40 | 2204.40 | | |
| 7 | आरक्षित (पिछले वर्ष 31.03.2020 | | | | | | | |
| ľ | के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में | | | | | | | |
| | दर्शाये गये अनुसार पुनर्मूल्यांकन | | | 2417.89 | | | | |
| | आरक्षित को छोडकर आरक्षित) | | | 2417.00 | | | | |
| 8 | प्रति शेयर अर्जन | | | | | | | |
| ľ | (रु. 1/ – प्रत्येक) | | l | | | | | |
| 1 | (चालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) | l | l | | | | | |
| | 1. मूल : | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | | |
| 1 | 2 तनुकृत : | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | | |
| \vdash | 2 1139/11 - | 0.011 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0.003 | | |
| नो | गोट | | | | | | | |

उपरोक्त सेबी (सुवीयन बाध्यताए एवं प्रकटन आवध्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सघेजों में दाखिल विमाही/इमाही वित्तीय पिरणामां के विस्तृत प्राष्ट्रण का सारांश है। विमाही/इमाही वित्तीय पिरणामां का पूरा प्राष्ट्रण स्टॉक एक्सघेजां की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट http://www.saktafinlease.in पर उपलब्ध हैं। के वेबसाइट http://www.saktafinlease.in पर उपलब्ध हैं। के वेबकाइट http://www.saktafinlease.in पर उपलब्ध हैं। के वेबकाइट मोतीयों में पिर्वत्तन के कारण निवत्त वाम्/ इजि. कुल व्यापक आय या किसी अन्य संगत वित्तीय मदों में प्रमाव को फुटनोट के माध्यम से प्रकटित किया जाएगा।
- लाम एवं होंनि विवरण में समायाणित अपवादात्मक और/या अतिविशिध्ट मद इंड-एएस नियमों/एएस नियम, जहां लागू हो, के अनुरूप है।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 11.11.2020

पॉर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड

CIN: 1.65993DL1992PLC048483 पंजीकृत कार्यालय : के एव—810 दूसरा तल महिपाल पूर एक्स्टेशन (नियर मारुति वर्क शॉप) नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली डी एल — 110037

30.09.2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (राशि लाख में) 30.09.2019 को समाप्त पिछले वर्ष के विवरण 30.06.2020 31.03.2020 को समाप्त को समाप्त तिमाही को समाप्त वर्तमान वर्ष के इस तिथि इस तिथि तव तक आंकडे 1 कुल आय 2 अवधि के लिए निवल लाम/ 36.27 4.97 6.7 11.69 14.02 (हानि) (कर, अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व#) कर पूर्व अवधि के लिए निवल 0.12 0.55 0.67 1.29 3.43 0.12 0.67 गम*ें* (हानि) (अपवादात्मक और 0.5 1.29 3.43 /या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) पा आसापारास्ट नया के बायम) र पश्चात अवधि के लिए निवल |म / (हानि) (अपवादात्मक और या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) 0.12 0.5 0.67 1.29 2.79 अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) 0.12 0.55 0.67 1.29 2.79 (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल) 1895.03 1895.03 1895.03 1895.03 1895.03 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाये गये अनुसार पुनर्मूल्यांकन 12.70 आरक्षित को छोड़कर आरक्षित) प्रति शेयर अर्जन एवं बंद प्रचालनों के लिए) 0.011 0.000 0.000 0.000

उपरोक्त सेवी (स्वीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनयम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजों में दाखिल तिसाद्दी प्रमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राष्ट्रण का सारांग्र हैं। तिमाद्दी/फुमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्राष्ट्रण स्टॉक एक्सचेज को वेबसाइट www.mselin और कम्पनी की वेबसाइट http://www.porschecapital.com पर उपलब्ध हैं। लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन के कारण निवल लाम/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य संगत वित्तीय मंदों में प्रमाव को फुट्नोट के माध्यम से प्रकृतित किया जाएगा।

- लाम एवं होनि विवरण में समायाजिल अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मद इंड-एएस नियमों/एएस नियम, जहां लागू हो, के अनुरूप हैं।

बोर्ड के आज्ञानुसार कृत्ते पॉर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड हस्ता / — राजन तिकीं निदेशक

SURYA INDIA LIMITED

Regd. Office: B-1/F-12, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-44 CIN: L74899DL1985PLC019991; Email: cs@haldiram.com; website: www.suryaindialtd.com Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half year ended

| | on September 30, | 2020 | s except EPS) | |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| S. No. | Particulars | end | erter ded | Half Year ended |
| | | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2020 |
| L | | | (Unaudited) | |
| 1 | Total income from operations (net) | 49.32 | 115.76 | 77.28 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period before Tax, | (32.67) | 22.63 | (62.83) |
| | Exceptional and/or Extraordinary items | | | |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax after | (32.67) | 22.63 | (62.83) |
| | Exceptional and/or Extraordinary items | | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax and | (32.67) | 17.19 | (62.83) |
| | after Exceptional and/or Extraordinary items | | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | (28.84) | (165.46) | (60.21) |
| l | [Comprising Profit for the period (after tax) and | | | |
| | Other Comprehensive Income (after tax)] | | | |
| 6 | Paid-up Equity Share Capital | 698.58 | 698.58 | 698.58 |
| | (Face value of Rs. 10 each) | | | |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as | - | - | - |
| | shown in the Audited Balance Sheet of the | | | |
| | previous year | | | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) | | | |
| | (for continuing and discontinued operations) | | | |
| l | 1. Basic: | (0.41) | (2.37) | (0.86) |
| L | 2. Diluted: | (0.41) | (2.37) | (0.86) |
| lس | ntoc: | | | |

स्थान : दिल्ली दिनांक : **11.11.2020**

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.suryaindialtd.com) 2) The above Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee

and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 10.11.2020. Previous quarter/year figures have been re-grouped and re-arranged whe

neccesary 4) Total Income shown above does not include other incomes

Place: New Delhi

By order of the Board of Directors

For Surya India Limited Preeti Agarwa Managing Directo DIN: 00011450

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड

CIN: L65910DL1983PLC016036, फोन: (011) 23313955, फैक्स: (011) 23316374 इमेलः oswal_leasing@owmnahar.com, वेबसाइटः www.owmnahar.com

30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित

| इक्त. | विवरण | समाप | समाप्त छमाही | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| सं. | 3 | 30.09.2020 (अनंकेक्षित) | 30.09.2019 (अनंकेक्षित) | 30.09.2020 (अनंकेक्षित) |
| 1. | प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध) | 6.84 | 4.41 | 10.98 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व) | 3.06 | 1.20 | 4.72 |
| 3. | कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)(विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) | 3.06 | 1.20 | 4.72 |
| 4. | कर के बाद अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/ (हानि)(विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद) | 2.28 | 0.89 | 3.53 |
| 5. | अवधि के दौरान कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके] | 2.28 | 0.89 | 3.53 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/-रु. प्रति) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7. | आरक्षितो (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अरिरिक्त) | 2 | | |
| 8. | आय प्रति शेयर (इपीएस) (अंकित मूल्य 10/-रु. प्रति) (जारी व बंद प्रचालनों हेतु): (वार्षिक नहीं): मूल व तनुकृत (रु. में) | 0.46 | 0.18 | 0.71 |

टप्पणी: 1. दिनांक 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित विर्त्त रिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और उसके बाद 11 नवंबर, 2020 को आयोजित निदेशक के बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया है। वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षिकों द्वारा सीगि

त्रपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षांए) विनियमों, 2015 वेनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लि ननंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमा लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामीं का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाई www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.owmnahar.com) पर भी उपलब्ध है। हिते एवं कृते निदेशकों का बो

कृते ओसवाल लीजिंग लिमिटे दिनांक: 11.11.2020 हस्ता./- हस्सीस कौ स्थानः नई दिल्ली प्रबंधक तथा सीएफओ

JINDAL CAPITAL LTD.

REGD. OFFICE: 79-A, KAMLA NAGAR, DELHI - 110007 CIN: L74899DL1994PLC059720 Website: www.jindalcapital.in E-mail: info@jindalcapital.in

Extract of the Standalone Audited Results for the Quarter ended September 30, 2020 (Rs. In Lakhs)

| S. No. | Particulars | Qtr ended 30.09.20 (unaudited) | Half Year ended 30.09.2020 (unaudited) | Qtr ended 30.09.19 (unaudited) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Total Income from Operations (net) | 206.38 | 428.66 | 234.72 | | | |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary item) | 22.67 | 41.93 | -6.85 | | | |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item) | 22.67 | 41.93 | -6.85 | | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item) | 22.67 | 41.93 | -6.85 | | | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) | 22.67 | 41.93 | -6.85 | | | |
| 6 | Equity Share Capital | 720.81 | 720.81 | 720.81 | | | |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year) | 61.08 | 61.08 | 21.75 | | | |
| 8 | Earning Per Share (of Rs 10/- each) (a) Basic (b) Diluted | 0.31 0.31 | 0.58 0.58 | -0.10 -0.10 | | | |
| Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results | | | | | | | |

filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and websit of the Company (www.jindalcapital.in) For and on Behalf of the Board

Sd/ Pawan Kumar Jinda

Chairma

DIN: 00524690

Place: Delhi Date: November 11, 2020

इनुसेप्टम एंट्रप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L51909DL1990PLC042445 **पंजीकृत कार्यालय** : ऑफिस नंबर न्त **कार्यालय** : ऑफिस नंबर जेएफ-01, प्रोपर्टी नंबर एफ-40 जगतपुरी दिल्ली – 110040 30.09.2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

| | | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षेत | के इस तिथि तक आंकड़े अलेखापरीक्षित | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | कुल आय | - | - | - | - | - |
| 2 | अवधि के लिए निवल लाभ/ (हानि) (कर, अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.30) |
| 3 | कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.30) |
| 4 | कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.29) |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.29) |
| 6 | इक्विटी शेयर पूंजी | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 |
| 7 | आरक्षित (पिछले वर्ष 31.03.2020 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाये गये अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित) | | | -265.34 | | |
| 8 | प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (चाल एवं बंद प्रचालनों के लिए) | | | | | |

तनुकृत उपरोक्त सेबी (स्वीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजों में वाखिल तिमाड़ी /छमाड़ी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाड़ी /छमाड़ी वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेज की विस्ताइ राष्ट्रण का सारांश है। तिमाड़ी /छमाड़ी वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेज की विस्ताइट MWW.bseindia.com और कम्मनी की वृद्धसाइट http://www.angssenler.com पर उपलब्ध है। लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन के कारण निवल लाम/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य संगत वित्तीय मूर्वों में प्रमाव को फुटनोट को माध्यम से प्रकृटित किया जाएंग।

- लाम एवं होनि विवरण में समायोधित अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मद इंड-एएस नियमों/एएस नियम, जहां लागू हो, के अनुरूप है।

बोर्ड के आज्ञानसार कृत्ते इनसेप्टम एंट्रप्राइजेज लिमिटेड (पूर्व में एन्जिल्स एंट्रप्राइजेज लिमिटेड

दिनांक : 11.11.2020

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED Regd. Office: L-7, Menz. Floor, Green Park Extension, South Delhi - 110016 CIN - L65910DI 1988PI C033799 Email : nurshottaminvestofin@gmail.com

Tel: 011-46067802, website: www.purshottaminvestofin.in Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended

30th September, 2020 (Rs. In Lacs except EPS

Quarter Ended Six Month Ended Year Ende **Particulars** 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.202 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 234.69 247.17 466.46 1299.1 Total Income from Operation(Net) Net Profit/(Loss) for the period 3.09 77.76 -0.09 30.3 Extraordinary Items) 77.76 Net Profit/(Loss) for the period 17.52 3.09 -0.09 30.38 before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 17.52 3.09 77.76 -0.09 22.64 after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for 17.52 3.09 77.76 -0.09 14.94 the period [comprising profit/(loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) 628.36 628.36 628.36 5 Paid-up Equity Share Capital 628.36 Reserves (excluding Revaluation 2.338.34 2.323.40 | 2.338.34 2323.4 2338.34 reserve as Shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (EPS (in Rs.) 0.28 0.05 1.240 0.24 Basic and Diluted EPS

Place : Delhi

Dated: 10th November, 2020

Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and o $Company's \ Website \ www.purshottaminvesto fin. in.$ The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board Directors in their meeting held on 10th November, 2020.

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly and Half Yearly Financia

The company has adopted Indian Accounting Stadards (Ind AS) Prescribed under section 133 c the companies act, 2013 read with the relevant Rules issued there under. The date of transition to

Ind AS is april 01,2018 and accordingly, financial results have been prepared in accordance with the recognition and mesurement principles laid down in Ind AS 34 "Interim Financial Reportin 'and the other accounting principles generally accepted in india. The impact of transition has been accounted for the operating reserves and the comparitive period figures have bee reinstated accordingly Previous period/ year figure have been regrouped/ reclasified wherever necessary,

Previous period/ year liquid liave been regrouped correspond with the current period's classification/disclosure.

For Purshottam Investofin Ltd.

Sahib Singh Gusai

DIN: 00649786

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 3:

कृते फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता /

रमेश कुमार डालमिय

0.11

तिथि: 11.11.2020

सार्वजनिक सूचना यह सूचित किया जाता है कि स्व. श्रीमती प्रेम लता शर्मा, जो इस सचिवालय में शोध/सन्दर्भ सहायक के रूप में कार्यरत थी, ने अपने पति (श्री आर. शर्मा, जिनका कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम ज्ञात पता ए-25, अरुणा पार्क, शकरपुर, दिल्ली है) को अपनी सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) खाता हेतु नामित किया था । तथापि, स्व. श्रीमती प्रेम लता शर्मा की माता श्रीमती प्रकाशवती द्वारा उनके बकाया देयों अर्थात सा.भ.नि. और अन्य लाभों के संबंध में दावा

लोक सभा सचिवालय

प्रशासन शाखा-1 कमरा सं. 131, प्रथम तल,

संसदीय सौध नई दिल्ली -110001

इस मामले में, श्री आर. शर्मा एक सम्बंधित पक्ष हैं और, इसलिए, उन्हें इस सचिवालय के समक्ष स्वयं का पक्ष रखने और अपनी पहचान, वैवाहिक स्थिति से संबंधित ब्यौरे के साथ-साथ इस संबंध में आपत्तियां/टिप्पणिया प्रस्तुत करने के लिए इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों का समय प्रदान किय जाता है। यदि विनिर्दिष्ट अवधि में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और सचिवालय को इस मामले में यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

davp 31201/11/0005/2021

किया गया है।

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि.

हस्ता./

निदेशक (ई)

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात 362 266 अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 200 संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के तहत ई—नीलाग

एतद्द्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे आदित्या बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है, को आदित्य बिड़ला हाउंसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खाते में दिनांक 31–07–2020 तक बकाया रू 22,69,248.04/— (रूपये बाईस लाख उनहत्तर हजार दो सौ अडतालीस एवं चार पैसे मात्र) एवं पूर्ण भुगतान करने की तिथि तक अग्रिम ब्याज तथा अन्य खर्चे की ऋणकर्ता (ओं) एवं सह—ऋणकर्ता (ओं) जिनके नाम **माली राम** सैनी, विमला कुमारी सैनी, मेसर्स श्री होंडा केयर सर्विस (इसके स्वामी के द्वारा), से बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ''जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी हैं'' के आधार पर दिनांक 14/12/2020 को बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। आरक्षित मूल्य रूपये 19,97,500/— (रूपये उन्नीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ मात्र) एवं अग्रिम घनराशि (ईएमडी) रू 1,99,750/— (रूपये एक लाख निन्यानवे हजार सात सौ पचास मात्र)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 11/12/2020 है।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

मकान नं. 414, दूसरा तल यूनिट नम्बर एस—1, गणेश नगर विस्तार कालवर्ड रोड, जोटवाडा, जयपुर, राजस्थान –302013 में स्थित बनी हुई सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल, उत्तर : प्लाट नं. 415, पूर्व : 30 फुट चौडी रोड, दक्षिण : प्लाट नं. 413, पश्चिम : प्लाट नं. 405 बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड की वेबसाइट का अवलोकन करें: https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for

9582222425, श्री पंकज राणा 7065748080, श्री अजय बैनर्जी 9783719280 श्री अशोक ढाक प्राधिकृत अधिकारी, 9983990161 तेथि : 12.11.2020 स्थान : जयपर आदित्य बिडला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net सम्पर्क व्यक्ति : श्री दलजिंदर सिंह

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि. पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात 362 266

CAPITAL

अंतिम तिथि : 11 / 12 / 2020 है |

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के तहत ई—नीलामी बिक्री सचना।

एतदद्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे आदित्या बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है, को आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखत खाते में दिनांक 30-09-2020 तक बकाया रू 11,97,857 / - (रूपये ग्यारह लाख सत्तानवे हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) एवं पूर्ण मुगतान करने की तिथि तक अग्रिम ब्याज तथा अन्य खर्चे की ऋणकर्ता (ओं) एवं सह—ऋणकर्ता (ओं) जिनके नाम विनय चंद्रा झा एवं निमा झा, से बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ''जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी हैं के आधार पर दिनांक 14/12/2020 को बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है आरक्षित मूल्य रूपये 12,00,000/— (रूपये बारह लाख मात्र) एवं अग्रिम घनराशि (ईएमडी) रू 1,20,000/— (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र)। ईएमडी जमा करने की

बंधक सम्पत्तियों का विवरण फ्लैट नं. ४. सम्पत्ति सं. सी–9 / ६. लेफ्ट हैंड बैक साइड. अपर ग्राउंड फ्लोर, बिना छत के अधिकार, डीएलएफ अंकुर विहार सदुल्लाबाद, परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद भारत नगर एस.ओ. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल, उत्तर

प्लाट सी 9 / 5, पूर्व : अन्य भूमि, दक्षिण : प्लाट सी 9 / 7, पश्चिम : 9 मीटर रोड

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड की वेबसाइट का अवलोकन करें: https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net सम्पर्क व्यक्ति : श्री दलजिंदर सिंह 9582222425, श्री पंकज राणा 7065748080, श्री तुगकौशिक 9873662400 पाधिकत अधिकारी

आदित्य बिडला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

आरसीसी सीमेन्टस लिमिटेड

सीआईएन : L26942DL1991PLC043776 पंजीकृत कार्यालय : 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-43571044, फैक्स : 011-43571047, वेबसाइट : www.rcccements.com,

ई-मेल आईडी : rcccementslimited@gmail.com 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु स्टैण्डअलोन अलेखापरीक्षित

| | वित्तीय परिणामों का सारांश (रू. लाख में) | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| ī. | विवरण | 30.09.2020 को | 30.09.2020 को | 30.09.2019 को | | | | | |
| ŧ. | | समाप्त तिमाही हेतु | समाप्त छमाही हेतु | समाप्त तिमाही हेतु | | | | | |
| | | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | (अलेखापरीक्षित) | | | | | |
| 1 | प्रचालनों से कुल आय (निबल) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2 | अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से | | | | | | | | |
| | पूर्व) निबल लाभ/(हानि) | (3.09) | (5.31) | (3.13) | | | | | |
| | कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों | | | | | | | | |
| | के पश्चात) निबल लाभ/(हानि) | (3.09) | (5.31) | (3.13) | | | | | |
| 1 | कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण | | | | | | | | |
| | मदों के पश्चात) निबल लाभ/(हानि) | (3.09) | (5.31) | (3.13) | | | | | |
| 5 | अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) | | | | | | | | |
| | लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से | | | | | | | | |
| | निर्मित] | (3.09) | (5.31) | (3.13) | | | | | |
| 5 | इक्विटी शेयर पूँजी | 560.20 | 560.20 | 560.20 | | | | | |
| 7 | आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) | | | | | | | | |
| | (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) | | | | | | | | |
| | बेसिक : | (0.06) | (0.09) | (0.06) | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(0.09) (0.06) **नोट**ः उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत बीएसः के साथ दर्ज 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। उपर्युक्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.rcccements.com पर उपलब्ध है। उपर्युक्त परिणा

कम्पनीज इंड एएस नियम 2015 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

स्थान : नई दिल्ली प्रबन्ध निदेशक तिथि : 11.11.2020 डीआईएन : 0017530

आरसीसीसी सीमेंट्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

सनील कमा

ईपीएस को छोडकर लाखों ग

फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड CIN No: U74899DL1992PLC048028 यूनिट∕शॉप नं. 205, दूसरा तल, अग्रवाल सिटी माल रोड नं. 44, पीतमपुरा दिल्ली-110034 30 सिंतबर, 2020 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

पूर्व वर्ष में समाप्त वर्ष दर वर्ष समाप्त विवरण छमाही रमाही के अनरूप आंकडे 30.09.2020 (30.09.2019) 31.03.2020 वचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के बाद सामान्य गतिविधियों शुद्ध 17.39 3.26 9.98 लाभ/(हानि) कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) 17.39 3.26 9.98 (असाधारण मदों के बाद) इक्विटी शेयर पंजी 1,578.24 1,578.24 1,578.24 आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए 2,118.5 अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) 0.11 0.06 ।. मृल 0.02

टेप्पणी:

स्थानः दिल्ली

2. तनुकृत

के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। बोर्ड के आदेशानसा

निदेशक DIN No.: 03257468

0.02

FINANCIAL EXPRESS

JINDAL CAPITAL LTD. REGD. OFFICE: 79-A, KAMLA NAGAR, DELHI - 110007

CIN: L74899DL1994PLC059720 Website: www.jindalcapital.in E-mail: info@jindalcapital.in Extract of the Standalone Audited Results for the Quarter ended September 30, 2020

(Rs. In Lakhs) Half Year Qtr ended ended Qtr ended **Particulars** No. 30.09.20 30.09.2020 30.09.19 unaudited) unaudited) (unaudited) Total Income from Operations (net) 206.38 428.66 234.72 Net Profit/(Loss) for the period (before tax. Exceptional and/or Extraordinary item) 22.67 41.93 -6.85 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item) 22.67 41.93 -6.85 Net Profit/(Loss) for the period after tax -6.85 (after Exceptional and/or Extraordinary item) 22.67 41.93 Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) 41.93 22.67 -6.85 and other Comprehensive Income (after tax) 720.81 720.81 720.81 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year) 61.08 61.08 21.75 Earning Per Share (of Rs 10/- each) -0.100.58 0.31 (a) Basic 0.58 -0.10 (b) Diluted 0.31

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.jindalcapital.in).

> Pawan Kumar Jindal Chairman DIN: 00524690

For and on Behalf of the Board

Inceptum Enterprises Limited (Formerly Known as Angels Enterprises Ltd) CIN: L51909DL1990PLC042445 Regd. Office: Office No.JF-01, Property No. F-40 Jagatpuri, Delhi-110040 STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2020

Place: Delhi

Note:

Date: November 11, 2020

| _ | | | | | | in Lakh) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| S. No | Particulars | Quarter ending on 30.09.2020 Unaudited | Preceding 3 Months Ended 30.06.2020 Unaudited | Year to date Figures Current Year ending 30.09.2020 Unaudited | Figures for | Previous Year Ended 31.03.2020 |
| 4 | Total Income | 5 52 | 1 1 4 | 7.4 | | - |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.30) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.30) |
| | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items#) | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.29) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (1.07) | (1.05) | (2.13) | (2.09) | (9.29) |
| ŝ | Equity Share Capital | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 31.03.2020 | | | -265.34 | | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- | | | | | |

the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Website of Stock Exchange (s) www.bseindia.com and on the Company's The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant Financial item (s) due to change(s) in Accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
 c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules, Whichever is applicable.

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with

By order of the Board For Inceptum Enterprises Limited (Formerly Known as Angels Enterprises Ltd) Place : Delhi /INAYAPRAKASH

RAJASTHAN TUBE MANUFACTURING COMPANY LTD Read. off.: 28-37 Banke Bihari Ind. Area, Jatawali Mod, Maharkala Road, Village Dehra, Teh. Chomu, Jaipur-303806 (Raj.)

Email:rajtube@hotmail.com, website :www.rajtube.com ,CIN:- L27107RJ1985PLC003370 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

| | A CONTROL OF THE PROPERTY OF T | (Rs. I | n Lacs, unles | s otherwise stated |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| S. | Particulars | Quart | er Ended | Half Year Ended |
| No. | 7 E X (18) (1) (A | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2020 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited |
| 1 | Total Income from Operations | 671.84 | 819.58 | 1502.97 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 6.91 | 9.24 | (15.98) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items.) | 6.91 | 9.24 | (15.98) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 6.91 | 9.24 | (15.98) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 6.91 | 9.24 | (15.98) |
| 6 | Equity Share Capital(Face Value Rs 10/-) | 449.99 | 449.99 | 449.99 |
| 7 | Earnings Per Share - | 12000 | | 1 - 1272 |
| | 1.Basic: | 0.15 | 0.21 | (0.35) |
| | 2.Diluted | 0.15 | 0.21 | (0.35) |

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and Company's website (www.rajtube.com) 2. The above Unaudited Results for Quarter and half year ended 30th September 2020 have been reviewed by audit committee and approved by the board of Directors at their respective meeting held on 11th November, 2020. 3. The Company is engaged in the usiness of manufacturing of ERW Steel Tubes. As there is only one reportable segment, the company has not given any segment information. 4. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant Rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI(Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015. 5. Provision for taxation will be considered at year end. For and on behalf of Board of directors

Place: Jaipur Harish Chand Jain Dated: 11th November, 2020 Managing Director, DIN: 01504391

CIN: L65910CH1984PLC021285 Regd Office: 3, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh. Ph.:0172-3911701/61 Email: marblefinltd@gmail.com, website:marblefinvest.com Extract from Standalone Un-Audited Financial Results for quarter and half year ended 30.09.2020 (Rs. in lacs)

MARBLE FINVEST LIMITED

| Sr. No. | Particulars | Quarter Ended | Year to date figure | Corresponding 3 months ended in the previous year |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Г | | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
| 1. | Total Income from Operations | 4.02 | 7.99 | 3.82 |
| 2. | Net Profit/(Loss) (before tax and Exceptional and/or Extraordinary Items) | 1.78 | 3.34 | (5.92) |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or Extraordinary items) | 1.78 | 3.34 | (5.92) |
| 4. | Net Profit/(Loss) after tax and Exceptional and/or Extraordinary items) | 0.91 | 2.48 | (5.92) |
| 5. | Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (loss)after tax and other comprehensive Income) | 0.91 | 2.48 | (5.92) |
| 6. | Equity Share Capital of Nominal value of Rs 10/- each | 279.90 | 279.90 | 279.90 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet | 3,214.37 | 3,214.37 | 3,215.24 |
| 8. | Earnings Per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)(amount in Rs.) Basic & Diluted: | 0.03 | 0.09 | (0.21) |

The above is an extract of the detailed format of quarterly un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Results is wailable on the portal of Metropolitan Stock Exchange of India (MSEI) at www.msei.in and company's website at www.marblefinvest.com. By order of the Board

For Marble Finvest Ltd Sd/- (Kamal Jeet) Place:Chandigarh Director (DIN:08562859) Date:10.11.2020

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LIMITED CIN No.: L45101DL1967PLC004759 Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001

Mob.: +91-9871053419, Tel.: 91-11-23353550, 66302268 / 72, Email: shareholderservice@ansalapi.com Website: www.ansalapi.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2020

| S. No. | PARTICULARS | STANDALONE | | | | CONSOLIDATED | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Quarter ended 30th September 2020 Unaudited | Quarter ended 30th June 2020 Audited | Quarter ended 30th September 2019 Unaudited | Year ended 31st March 2020 Audited | Quarter ended 30th September 2020 Unaudited | Quarter ended 30th June 2020 Audited | Quarter ended 30th September 2019 Unaudited | Year ended 31st March 2020 Audited |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Total Income from Operations (Net) | 19,598 | 7,425 | 15,242 | 80,983 | 23,141 | 9,732 | 20,841 | 114,525 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | (905) | (415) | (641) | (9,310) | (2,872) | (2,393) | (3,463) | (18,238) |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (905) | (415) | (641) | (18,442) | (2,872) | (2,393) | (3,463) | (25,344) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (985) | (380) | (495) | (20,374) | (2,996) | (2,497) | (3,149) | (26,096) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (974) | (380) | (501) | (21,342) | (2,989) | (2,499) | (3,147) | (26,643) |
| 6 | Equity Share Capital | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | - | - | - | 13,106 | - | | - | (19,292) |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | | | | | | |
| | 1. Basic | (0.63) | (0.24) | (0.31) | (12.94) | (1.75) | (1.33) | (1.61) | (15.32) |
| | 2. Diluted: | (0.63) | (0.24) | (0.31) | (12.94) | (1.75) | (1.33) | (1.61) | (15.32) |

Note: The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Period ended on 30th September, 2020 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing tions and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said standalone and consolidated results are available or the Stock Exchanges website(s) at www.nseindia.com, www.bseindia.com and also on Company's website at www.ansalapi.com.

> For Ansal Properties & Infrastructure Limited Sd/-(Sushil Ansal)

Chairman and Whole Time Director DIN: 00002007

K. M. SUGAR MILLS LIMITED

CIN No.:L15421UP1971PLC003492 Regd. Office:11, Moti Bhawan, Collectorganj, Kanpur-208 001 (U.P.)

Email: kmsugar@gmail.com, Website: www.kmsugar.com Phone: Regd. office: 0512-2310762, Branch office: 0522-4079561

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2020

(₹ in Lacs) Standalone Consolidated Particulars Six Months Quarter Quarter Six Months Quarter Quarter No Ended Ended Ended Ended Ended Ended 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2019 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 14,237 31,782 10,668 14,237 31,782 10,668 Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before tax & 535 2,062 652 2.062 652 535 exceptional items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after 652 2.062 535 652 2,062 535 exceptional items) 1,590 355 663 354 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after 663 1,590 exceptional items) 357 653 1.583 653 1,583 356 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity share capital 1840 1,840 1.840 1,840 1,840 1,840 Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (not annualised) a) Basic 0.72 1.73 0.39 0.72 1.73 0.38 b) Diluted 0.72 1.73 0.39 0.72 1.73 0.38

Notes:

Date: 10th November, 2020

Place: New Delhi

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the guarter ended September 30, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com) and (www.bseindia.com) and the Company's website The financial results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies

accounting principles generally accepted in India.

Sugar being seasonal industry, the performance of the Company varies from quarter to quarter and the results for the quarter as such may not representative of the annual performance of the Company. By the Order of the Board

(Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 and other

-

For K.M. Sugar Mills Ltd. Aditya Jhunjhunwala Managing Director

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Read, Office: L-7, Menz, Floor, Green Park Extension, South Delhi - 110016 CIN - L65910DL1988PLC033799, Email : purshottaminvestofin@gmail.com Tel: 011-46067802, website: www.purshottaminvestofin.in Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended

30° September, 2020

Quarter Ended

(Rs. In Lacs except EPS)

Defendants

Six Month Ended Year Ended

Particulars 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 Inaudited Unaudited Unaudited Audited 247.17 466.46 1299.16 Total Income from Operation(Net) 178.32 234.69 17.52 -0.09 Net Profit/(Loss) for the period 3.09 77.76 30.38 (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) for the period 17.52 3.09 77.76 -0.0930.38 before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 17.52 3.09 77.76 -0.09 22.64 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 17.52 77.76 Total Comprehensive Income for 3.09 -0.09the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Paid-up Equity Share Capital 628.36 628.36 628.36 628.36 Reserves (excluding Revaluation 2,338.34 2,323.40 2,338.34 2323.4 2338.34 reserve as Shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (EPS) in Rs.) 0.28 0.05 1.240 0.24 Basic and Diluted EPS

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's Website www.purshottaminvestofin.in. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

Directors in their meeting held on 10" November, 2020.

The company has adopted Indian Accounting Stadards (Ind AS) Prescribed under section 133 of the companies act, 2013 read with the relevant Rules issued there under. The date of transition to Ind AS is april 01,2018 and accordingly, financial results have been prepared in accordance with the recognition and mesurement principles laid down in Ind AS 34 "Interim Financial Reporting "and the other accounting principles generally accepted in india. The impact of transition has been accounted for the operating reserves and the comparitive period figures have been

correspond with the current period's classification/disclosure. For Purshottam Investofin Ltd.

Previous period/ year figure have been regrouped/ reclasified wherever necessary, t

Sahib Singh Gusain

Place: Delhi Managing Director Dated: 10" November, 2020 DIN: 00649786

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW (Area of Jurisdiction part of Uttar Pradesh)

600/1, University Road, near Hanuman Setu Mandir, Lucknow

Summons for filling Reply & Appearance by Publication (Summons to defendants through publication Under Section 19(3) of The Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act. 1993 read with Rules 12 & 13 of the Debts

Versus

Recovery Tribunal (Procedure) Rules 1993). Bank of Baroda **Applicant**

M/s Ankit Enterprises Through its Proprietor Mrs. Radha Rani Singhal **Defendants**

M/s Ankit Enterprises Through its Proprietor Mrs. Radha Rani Singhal (W/o Mr. Lajpat Singhal) Regd. Off.: Gandhi Colony, Muradnagar, Distt. Ghaziabad-201206

into Sets along with and affidavits (If Any) personally or through your duly Authorized agent or legal practitioner in Tribunal after serving copy of the same on the applicant or his council /duly authorised agent after publications of the summons from the date of service of the summons and therefore to appear before the Tribunal on 18.11.2020 at 10.30 A.M. Failing

In the above noted Original application. You are required to file reply in paper book form

which shall be heard and decided in your absence Given under my hand and seal at Lucknow on this 02.09.2020 Registrar **Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

HRB FLORICULTURE LIMITED

CIN: L01300RJ1995PLC009541 Reg. Office: A-28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur-302016 • Ph. 0141-2303098, 0141-2303097 (Telefax), E-mail: hrbflrltd@vahoo.com, Website: www.hrb.co.in Extract of the Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half-year ended on 30th September, 2020

| Particulars | Quarter ended 30-09-2020 | Half year ended on 30-09-2020 | Corresponding quarter ended o 30-09-2019 | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | |
| Total Income from Operations | 33 | - 18 | - | |
| Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, | emanus processos | 100 110-0000010000 | | |
| Exceptional and/or Extraordinary items) | (1,27,779) | (2,69,307) | (2,64,336) | |
| Net Profit / (Loss) for the period before tax | 1.7590V27N000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 30,000,000,000,000 | |
| (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (1,27,779) | (2,69,307) | (2,64,336) | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax | (1,27,779) | (2,69,307) | (2,64,336) | |
| Total Comprehensive Income for the period | (1,27,779) | (2,69,307) | (2,64,336) | |
| Equity Share Capital | 2,27,63,000 | 2,27,63,000 | 2,27,63,000 | |
| Basic & Diluted Earnings Per Share (of Rs. 10)- each) | (0.06) | (0.12) | (0.12) | |

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly and half-yearly unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange. The full format of the quarterly and half-yearly un-audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.hrb.co.in). For HRB Floriculture Ltd.

Description of Immovable

Date: 11.11.2020 Krishan Kumar Parwal (Managing Director) Place: Jaipur

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Date of



Nothern Regn. Office: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi - 67 Tel.: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

POSSESSION NOTICE Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation. Name of Borrower(s) / Outstanding

Date of

| No. | Legal Heir(s) and Legal Representative(s)/ Loan Account Nos. | Dues | Demand Notice | Possession | Property(ies)/Secured Asset(s) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | MR RANJEET KUMAR LOAN ACCOUNT NO. 622224835 & 621132471 | Rs. 13,04,565/- (Rupees Thirteen Lakh Four Thousand Five Hundred and Sixty Five Only) as on 30-JUNE-2020* | 14-JULY-2020 | 10-NOV-2020 (PHYSICAL) | FLAT NO NK-I/240 EWS, GROUND FLOOR, GDA NYAY KHAND-1, INDIRAPURAM, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH |
| 2. | MR SUSHOBHAN RAY LOAN ACCOUNT NO. 606499536 | Rs. 17,06,797/- (Rupees Seventeen Lakh Six Thousand Seven Hundred and Ninety Seven Only) as on 31-MAY-18* | 25-JUNE-2018 | 10-NOV-2020 (SYMBOLIC) | FLAT NO. 104, GF, REAR LEFT, LIG, SECTOR-6, PLOT NO. 66, SECTOR- 6, VAISHALI, GHAZIABAD AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT&FUTURE |

with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation. However, since the borrowers mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC

has taken physical possession of the immovable property / secured asset described herein above as mentioned in serial no. 1 and symbolic possession of the immovable property / secured asset described herein above as mentioned in serial no. 2 in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above. The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby

cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd. Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

Copies of the Panchnama drawn and inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. For Housing Development Finance Corporation Ltd. Place: Delhi

Date: 11-11-2020 Authorised Officer Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020



RAMA STEEL TUBES LIMITED

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi-110096 E-mail ID: info@ramasteel.com, investors@ramasteel.com, Ph. No.: +91-11-43446600

Website: www.ramasteel.com

Extracts of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2020 prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)

(In ₹ Lakhs except EPS Quarter ended Half Year Ended Year ended **Particulars** 31-Mar-20 30-Sep-20 30-Jun-20 30-Sep-19 30-Sep-20 30-Sep-19 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 13,010.71 4.817.54 8,229.60 17,828.24 18,294.91 35,645.96

Total income from operations Net Profit/(Loss) before Tax (Before Exceptional and (213.22)334.25 (183.10)121.04 5.47 284.93 Extraordinary Items) Net Profit/(Loss) before Tax (After Exceptiional and 334.25 Extraordinary Items) (213.22)(183.10)121.04 5.47 284.93 Net Profit/(Loss) after Tax (After Exceptiional and Extraordinary Items) 345.48 (192.30)(135.92)153.19 32.28 116.26 Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax) 352.00 (192.13)(116.60)159.88 46.63 155.50 Equity Share Capital 839.70 839.70 839.70 839.70 839.70 839.70 Reserves (Excluding Revaluation Reserve) 8,016.75 Earning per Share (in ₹) (0.69)0.95 0.28 0.93 Basic (1.14)Diluted 2.10 0.95 0.28 0.93 (1.14)(0.69)

Notes:

These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.

The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 11, 2020. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The auditors have expressed an unqualified report on the above results.

Standalone Results as on September 30, 2020 are as under :-

(₹ in Lakhs)

| 200 | Particulars | T | Quarter ender | d | Half Year Ended | | Year ended | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| S. No. | | 30-Sep-20 (Unaudited) | 30-Jun-20 (Unaudited) | 30-Sep-19 (Unaudited) | 30-Sep-20 (Unaudited) | 30-Sep-19 (Unaudited) | 31-Mar-20 (Audited) | |
| 110. | | | | | | | | |
| 1 | Net Sales / Income From Operations | 8,645.77 | 2,301.67 | 6,356.67 | 10,947.43 | 14,736.55 | 29,176.13 | |
| 2 | Other Income | 109.41 | 105.21 | 126.55 | 214.60 | 205.56 | 472.34 | |
| 3 | Profit before Tax | 265.15 | (169.36) | (62.90) | 95.74 | 99.93 | 342.13 | |
| 4 | Profit after Tax | 259.90 | (163.38) | (22.62) | 96.48 | 103.61 | 210.90 | |
| 5 | Total Comprehensive Income after Tax | 259.69 | (163.59) | (22.71) | 96.06 | 103.44 | 210.06 | |

to this. Government of India declared lockdown on March 24, 2020 which has impacted the business activities of the group in first guarter. Accordingly, figures for half year ended September 30,2020 are not comparable to half year ended September 30,2019 and figures for the guarter ended September 30, 2020 are not comparable to the guarter ended June 30,2020 on account of restriction in business activities caused due to COVID-19 pandemic during the first quarter.

"The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.

For Rama Steel Tubes Ltd.

Date: November 11, 2020

Place: Delhi

Managing Director

New Delhi

World Health Organisation (WHO) declared outbreak of Coronavirus Disease (COVID-19) a global pandemic on March 11, 2020. Consequent

The above Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2020 are available on the website of the Company (www.ramasteel.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Naresh Kumar Bansal

financialexp.epar.in

Place: LUCKNOW

Date: 10.11.2020